



The Institute of Chartered Financial Analysts of India University, Jharkhand

Press Release

रांची

26/03/2020

इकफ़ाई विश्वविद्यालय ने छात्रों को घर से पढ़ाई करने के लिए “स्वाध्याय” पोर्टल की शुरुआत की

कोविड - 19 के प्रसार को रोकने के लिए लॉक-डाउन प्रतिबंध के कारण, विश्वविद्यालय के छात्रों को घर पर रहने के कारण उनके पढ़ाई के लिए, इकफ़ाई विश्वविद्यालय, झारखंड ने एक डिजिटल स्व-अध्ययन पोर्टल, स्वाध्याय विकसित किया है। घर बैठे, विश्वविद्यालय के छात्र अपने संकाय सदस्यों द्वारा इन-हाउस स्वाध्याय पोर्टल पर अपलोड किए गए डिजिटल पाठ्यक्रम सामग्री के माध्यम से वर्तमान सेमेस्टर के लिए अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि पोर्टल की शुरुवात नई वर्षा संवत् 2077 के पहले दिन से चालू किया गया है।

विश्वविद्यालय के सभी संकाय सदस्य, घर से काम करके पिछले 3 दिनों में, 200 से अधिक डिजिटल आइटम को बनाया और विभिन्न पाठ्यक्रमों को कवर किया और उन्हें पोर्टल पर अपलोड किया, जिसमें पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन, वीडियो व्याख्यान, केस स्टडी आदि शामिल हैं। पोर्टल पर पाठ्यक्रम सामग्री का अध्ययन करने के बाद, छात्रों को एक ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी देने की आवश्यकता होती है, ताकि उन्हें अपने सीखने पर प्रतिक्रिया मिल सके। “स्वाध्याय” पोर्टल “स्वयं” जैसे “मूक” पाठ्यक्रमों से अलग है, क्योंकि यह विश्वविद्यालय की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित है। इसके अलावा, सभी पाठ्यक्रम सामग्री विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों द्वारा ही विकसित की जाती है।

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो ओआरएस राव ने ऑनलाइन प्रेस को संबोधित करते हुए कहा, “अभूतपूर्व कोविड - 19 संकट के कारण, विश्वविद्यालय परिसर में कक्षाएं रुकी हुई हैं, लेकिन अधिकांश छात्रों के अध्ययन को रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि अधिकांश छात्र सेमेस्टर के बीच में हैं। स्वाध्याय इस समस्या का समाधान करने का एक उपाय है। प्रो राव ने कहा की, हमारे सभी संकाय सदस्य अपने घरों से, हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार डिजिटल सामग्री बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारे छात्र घर पर पढ़ाई जारी रख सकें। “शीघ्र ही, “स्वाध्याय” संकाय विकास के लिए भी स्व-अध्ययन की सुविधा प्रदान करेगा ताकि वे आत्म-विकास के लिए समय का उपयोग कर सकें”

=====